

पिछले कुछ वर्षों में भारतीय डाक द्वारा शुरू की गई किन्हीं चार लोकप्रिय योजनाओं के बारे में विस्तार से बताएं। इसके अलावा, इसके लिए राज्य कर निहितार्थ भी बताइये।

6. Write a short note on ANY TWO :

- (a) Long Term Capital Gain
- (b) Motor Insurance
- (c) Permanent Account Number
- (d) Kisan Vikas Patra

किन्हीं दो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- (क) दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ
- (ख) मोटर बीमा
- (ग) स्थायी खाता संख्या
- (घ) किसान विकास पत्र

[This question paper contains 4 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 5473

H

Unique Paper Code : 2416000002

Name of the Paper : Finance for Everyone

Name of the Course : Common Prog Group
(UGCF) (SOL)

Semester : II

Duration : 2 Hours

Maximum Marks : 60

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. All questions carry equal marks.
3. Attempt any **four** questions.
4. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।

2. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
3. किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
4. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

1. "All individuals have to be very careful not only in assessing their requirement of finance but also in deciding on the forms in which funds are raised and utilized". In the light of the above statement, highlight the importance and process of financial planning.

“सभी व्यक्तियों को न केवल अपनी वित्त की आवश्यकता का आकलन करने में बल्कि धन जुटाने और उपयोग करने के तरीकों पर निर्णय लेने में भी बहुत सावधान रहना होगा। उपरोक्त कथन के आलोक में वित्तीय नियोजन के महत्व एवं प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए।

2. What do you mean by Hedging? Explain the strategy of hedging with the help of an example.

हेजिंग से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण की सहायता से हेजिंग की रणनीति समझाइये।

3. An effective customer grievance redressal mechanism is an essential for building trust on any business. Keeping in view of this, Reserve Bank of India introduced the Banking Ombudsman Scheme from the year 1995. State the grounds on which complaint can be lodged by the customer and state its procedure.

किसी भी व्यवसाय पर विश्वास बनाने के लिए एक प्रभावी ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1995 से बैंकिंग लोकपाल योजना शुरू की। ग्राहक द्वारा किस आधार पर शिकायत दर्ज की जा सकती है और इसकी प्रक्रिया बताइये।

4. "A mortgage is critically important part of home loans." In light of the above statement, explain the meaning and importance of mortgage. Distinguish between Hypothecation, mortgage, and pledge.

“बंधक गृह ऋण का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है।” उपरोक्त कथन के आलोक में बंधक का अर्थ एवं महत्व स्पष्ट कीजिये। दृष्टिबंधक, बंधक और गिरवी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए।

5. Elaborate on any four popular schemes launched by Indian Post over the years. Also, state tax implications for the same.